

1. The phrase 'equality before law' used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of
- (A) Britain
(B) USA
(C) France
(D) More than one of the above
(E) None of the above
2. What was the duration in the making of the Indian Constitution?
- (A) 1 year 10 months and 12 days
(B) 2 years 10 months and 5 days
(C) 2 years 11 months and 18 days
(D) More than one of the above
(E) None of the above
3. The Council of Ministers in a State is collectively responsible to
- (A) the Chief Minister
(B) the Governor
(C) the Legislative Assembly
(D) More than one of the above
(E) None of the above
4. Consider the following statements :
- In the post-73rd Amendment era, there has to be decentralization of
1. decision-making powers
 2. system as a whole
 3. judicial powers
 4. administrative powers
- Which of the above statements are correct?
- (A) 1, 2 and 3 only
(B) 1, 2 and 4 only
(C) 2, 3 and 4 only
(D) More than one of the above
(E) None of the above
5. The representation in the Rajya Sabha includes
- (A) members directly elected by citizens
(B) members indirectly elected by citizens through their representatives
(C) members nominated by the President of India
(D) More than one of the above
(E) None of the above
6. Which of the following is concerned with the Supreme Court of India?
- (A) Appellate jurisdiction
(B) Original jurisdiction
(C) Collegium system
(D) More than one of the above
(E) None of the above
7. The minimum age for contesting elections to the Panchayati Raj Institutions should be how many years according to the 73rd Constitutional Amendment Act?
- (A) 21 years
(B) 25 years
(C) 18 years
(D) More than one of the above
(E) None of the above

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ 'कानून के समक्ष समानता' किस देश के संविधान से लिया गया है?
- (A) ब्रिटेन
(B) यू० एस्० ए०
(C) फ्रांस
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा?
- (A) 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन
(B) 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन
(C) 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. राज्य का मंत्रिपरिषद् सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है?
- (A) मुख्यमंत्री
(B) राज्यपाल
(C) विधान-सभा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- 73वें संशोधन के बाद विकेन्द्रीकरण किया गया
1. निर्णय लेने की शक्तियों का
 2. पूर्ण व्यवस्था का
 3. न्यायिक शक्तियों का
 4. प्रशासनिक शक्तियों का
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2 और 4
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. राज्य सभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं
- (A) नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य
(B) अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य
(C) भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है?
- (A) अपीलीय अधिकार क्षेत्र
(B) मूल अधिकार क्षेत्र
(C) कॉलेजियम प्रणाली
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
7. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है?
- (A) 21 वर्ष
(B) 25 वर्ष
(C) 18 वर्ष
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

8. With reference to the Consumer Disputes Redressal at the district level in India, which one of the following statements is *not* correct?

- (A) The State Government can establish more than one District Forum in a district if it deems fit.
(B) One of the members of the District Forum shall be a woman.
(C) The District Forum entertains the complaints where the value of goods or services does not exceed rupees fifty lakhs.
(D) More than one of the above
(E) None of the above

9. At what level does a Panchayat Samiti operate a Panchayati Raj structure?

- (A) District level
(B) Gram Panchayat level
(C) Block-level body
(D) More than one of the above
(E) None of the above

10. Which one of the following was established as the first programme of community development?

- (A) National Extension Service
(B) Integrated Rural Development Programme
(C) Cooperation Movement
(D) More than one of the above
(E) None of the above

11. Which of the following are the objectives of the SEZ Act, 2005?

1. Generation of additional economic activity
2. Promotion of exports of goods and services
3. Creation of employment

- (A) 1, 2 and 3
(B) 2 and 3 only
(C) 1 and 3 only
(D) More than one of the above
(E) None of the above

12. What is the policy measure adopted by the Government of India to improve the system of agricultural marketing?

- (A) Minimum Support Price (MSP)
(B) Maintenance of Buffer Stock
(C) Public Distribution System (PDS)
(D) More than one of the above
(E) None of the above

13. Which committee suggested the enactment of the Competition Act, 2002?

- (A) Rangarajan Committee
(B) S. V. S. Raghavan Committee
(C) Vijay Kelkar Committee
(D) More than one of the above
(E) None of the above

8. भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (A) राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है।

(B) जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी।

(C) जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है?

(A) जिला स्तर -

(B) ग्राम पंचायत स्तर -

(C) ब्लॉक-स्तरीय निकाय

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक -

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

10. निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था?

(A) राष्ट्रीय विस्तार सेवा

(B) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम -

(C) सहयोग आन्दोलन

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

11. एस० ई० जेड० अधिनियम, 2005 के उद्देश्य क्या हैं?

1. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन
2. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा
3. रोजगार निर्माण

(A) 1, 2 और 3 -

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है?

(A) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम० एस० पी०) -

(B) बफर स्टॉक का रखरखाव

(C) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०)

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया?

(A) रंगराजन समिति

(B) एस० वी० एस० राघवन समिति -

(C) विजय केलकर समिति

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

14. Match List-I with List-II :

List-I

List-II

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| a. Grey Revolution | 1. Onion production |
| b. Pink Revolution | 2. Tomato and meat production |
| c. Silver Revolution | 3. Production of eggs |
| d. Red Revolution | 4. Fertilizers |

(A) a b c d
4 1 3 2

(B) a b c d
3 1 4 2

(C) a b c d
1 4 2 3

(D) More than one of the above

(E) None of the above

15. Which of the following Five-Year Plans was focussed on Human Resource Development?

(A) First

(B) Third

(C) Fifth

(D) More than one of the above

(E) None of the above

16. Which of the following States of India received the highest Foreign Direct Investment (FDI) equity flow during April to September 2022?

(A) Karnataka

(B) Tripura

(C) Gujarat

(D) More than one of the above

(E) None of the above

17. In which budget did the Finance Minister announce the Liberalized Exchange Rate Management System?

(A) Union Budget, 1991-1992

(B) Union Budget, 1992-1993

(C) Union Budget, 1993-1994

(D) More than one of the above

(E) None of the above

18. Which of the following were goals of the Five-Year Plans?

1. Growth

2. Modernization

3. Self-reliance

4. Literature

(A) 1, 3 and 4 only

(B) 2, 3 and 4 only

(C) 1, 2 and 4 only

(D) More than one of the above

(E) None of the above

19. Which organization carries out the survey for determining the poverty line?

(A) NSSO

(B) NITI Aayog

(C) RBI

(D) More than one of the above

(E) None of the above

20. The trade balance of India (merchandise and services) for December 2022 (provisional) is

(A) (-) 10-50 USD billion

(B) (+) 11-98 USD billion

(C) (-) 11-98 USD billion

(D) More than one of the above

(E) None of the above

14. सूची-I को सूची-II से सुभेलित कीजिए :

सूची-I

सूची-II

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. धूसर क्रांति | 1. प्याज का उत्पादन |
| b. गुलाबी क्रांति | 2. टमाटर और मांस उत्पादन |
| c. रजत क्रांति | 3. अंडे का उत्पादन |
| d. लाल क्रांति | 4. उर्वरक (फर्टिलाइजर) |

(A) a b c d
4 1 3 2

(B) a b c d
3 1 4 2

(C) a b c d
1 4 2 3

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

15. निम्नलिखित में से कौन-सी पंचवर्षीय योजना, मानव संसाधन विकास पर केन्द्रित थी?

(A) प्रथम

(B) तृतीय

(C) पंचम

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

16. भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ० डी० आइ०), इकिटी के रूप में प्राप्त किया?

(A) कर्नाटक

(B) त्रिपुरा

(C) गुजरात

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियम दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की?

(A) यूनियन बजट, 1991-1992

(B) यूनियन बजट, 1992-1993 ✓

(C) यूनियन बजट, 1993-1994

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

18. पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-से थे?

1. विकास

2. आधुनिकीकरण

3. आत्मनिर्भरता

4. साहित्य

(A) केवल 1, 3 और 4

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 1, 2 और 4

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं ✓

19. गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन-सा संगठन सर्वेक्षण करता है?

(A) एन० एस० एस० ओ०

(B) नीति आयोग

(C) आर० बी० आइ०

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

20. भारत का व्यापार संतुलन (माल और सेवाएँ) दिसंबर 2022 (अंतिम) के लिए है

(A) (-) 10-50 अरब अमरीकी डॉलर

(B) (+) 11-98 अरब अमरीकी डॉलर

(C) (-) 11-98 अरब अमरीकी डॉलर ✓

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

26. The Swadeshi and Boycott were adopted as the methods of struggle for the first time during the
- (A) visit of the Simon Commission to India
(B) Partition of Bengal
(C) Home Rule Movement
(D) More than one of the above
(E) None of the above
27. At the Calcutta Session of the Indian National Congress (INC) held in 1906, the Flag of Swaraj for India was unfurled by
- (A) A. O. Hume
(B) Dadabhai Naoroji
(C) G. K. Gokhale
(D) More than one of the above
(E) None of the above
28. During the freedom struggle, a parallel movement launched in the Indian States (in the States ruled by the Indian rulers such as Kashmir, Nizam's Hyderabad, Travancore, etc.) was
- (A) State People's Movement
(B) Praja Mandal Movement
(C) Swaraj Movement
(D) More than one of the above
(E) None of the above
29. Which of the following statements regarding the Indian freedom struggle is *not* correct?
- (A) Gandhiji withdrew from the Non-Cooperation Movement due to the Chauri-Chaura Incident.
(B) Gandhiji gave his first major public speech at Banaras Hindu University.
(C) Mahatma Gandhi was arrested in the year 1921.
(D) More than one of the above
(E) None of the above
30. Which one of the following was a journal brought out by Abul Kalam Azad?
- (A) *The Comrade*
(B) *Al-Hilal*
(C) *Zamindar*
(D) More than one of the above
(E) None of the above
31. How did the study of history help in creating a feeling of nationalism in India towards the end of the 19th century?
- (A) By reinterpreting history and refuting the British portrayal of Indians as backward, primitive and incapable of governing themselves
(B) By writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievements
(C) By urging people to struggle and change the miserable conditions of life under the British rule
(D) More than one of the above
(E) None of the above
32. Which of the following statements are *not* correct regarding the Non-Cooperation Movement in the towns?
1. Only the upper caste and the rich took part in the movement.
2. The council elections were boycotted even by the Justice Party of Madras.
3. Thousands of students left government-controlled schools, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their practice.
- (A) 1 and 3 only
(B) 2 and 3 only
(C) 1 and 2 only
(D) More than one of the above
(E) None of the above
26. प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं वहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे?
- (A) साइमन कमीशन के भारत आगमन
(B) बंगाल विभाजन
(C) होम रूल आंदोलन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
27. 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आइ० एन० सी०) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झण्डा किसके द्वारा फहराया गया था?
- (A) ए० ओ० ह्यूम
(B) दादाभाई नौरोजी
(C) जी० के० गोखले
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
28. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों (कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों) में एक समानांतर आंदोलन शुरु किया गया था। उसका नाम था
- (A) राज्य जन आंदोलन
(B) प्रजा मण्डल आंदोलन
(C) स्वराज आंदोलन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
29. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- (A) चौरा-चौरा कांड के कारण गांधीजी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था।
(B) गांधीजी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में दिया था।
(C) वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
30. अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था?
- (A) द कॉम्रेड
(B) अल-हिलाल
(C) जमींदार
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
31. 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की?
- (A) इतिहास की पुनर्बाह्याकरण करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके
(B) भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके
(C) ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
32. नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?
1. आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया।
2. मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का वहिष्कार किया गया।
3. हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी।
- (A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

33. "A Sanyasi who came to that district after a spell as an indentured labourer in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back from which he would recite verses to rural audience." The peasant leader referred to here is

- (A) Jhinguri Singh
(B) Yadunandan Sharma
(C) Baba Ram Chandra
(D) More than one of the above
(E) None of the above

34. Who was the founder of All India Harijan Sangh in 1932?

- (A) Jagjivan Ram
(B) Mahatma Gandhi
(C) Dr. B. R. Ambedkar
(D) More than one of the above
(E) None of the above

35. On February 20, 1947, Prime Minister Attlee announced the British Government's decision to withdraw from India latest by

- (A) August 1947
(B) January 1948
(C) June 1948
(D) More than one of the above
(E) None of the above

36. Who established Swaraj Dal in Bihar?

- (A) Shri Krishna Singh
(B) Ramlal Shah
(C) Bankim Chandra Mitra
(D) More than one of the above
(E) None of the above

37. During the Salt Satyagraha in Bihar, in addition to making salt, the people chose to oppose the government by opposing which tax?

- (A) Haathi
(B) Development
(C) Malba
(D) More than one of the above
(E) None of the above

38. The elected Government of Bihar formed by Shri Krishna Singh resigned in February 1938 for which reason?

- (A) Participation in the Freedom Struggle of India
(B) For the release of political prisoners
(C) Satyagraha against the British at the call of Gandhiji
(D) More than one of the above
(E) None of the above

39. Who saved the life of Gandhiji in Bihar during Champaran Satyagraha?

- (A) Batak Mian
(B) Hamid Ansari
(C) Ravindra Pathak
(D) More than one of the above
(E) None of the above

40. Who led cultivators in Bihar during the Non-Cooperation Movement?

- (A) Swami Vidyanand
(B) Raj Kumar Shukla
(C) Shri Krishna Singh
(D) More than one of the above
(E) None of the above

33. "एक संन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था।" यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है, वह है

- (A) झींगुरी सिंह
(B) यदुनन्दन शर्मा
(C) बाबा राम चन्द्र ✓
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

34. ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी?

- (A) जगजीवन राम
(B) महात्मा गांधी
(C) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. 20 फरवरी, 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी?

- (A) अगस्त 1947
(B) जनवरी 1948
(C) जून 1948 ✓
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

36. स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी?

- (A) श्री कृष्ण सिंह ✓
(B) रामलाल शाह
(C) बंकिम चंद्र मित्र
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

37. नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ-साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना?

- (A) हाथी
(B) विकास
(C) मलबा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

38. श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया?

- (A) भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण
(B) राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण
(C) गांधीजी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

39. किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधीजी की जान बचाई थी?

- (A) बतक मियाँ
(B) हमिद अंसारी
(C) रवीन्द्र पाठक
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

40. असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की?

- (A) स्वामी विद्यानंद ✓
(B) राज कुमार शुक्ल
(C) श्री कृष्ण सिंह
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

41. In ancient times, the area to the south of the Ganga was known as
- (A) Takshashila
(B) Chola
(C) Anarta
(D) More than one of the above
(E) None of the above
42. When did the use of iron begin in Indian subcontinent?
- (A) Around 12000 years ago
(B) Around 6000 years ago
(C) Around 9000 years ago
(D) More than one of the above
(E) None of the above
43. According to the rock inscription in Sanskrit, composed around second century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir, was repaired by
- (A) Kanishka
(B) Rudradaman
(C) Harsha
(D) More than one of the above
(E) None of the above
44. The temple of Deogarh near Jhansi and the sculptures in the temple at Garhwa near Allahabad are the important remains of the
- (A) Gupta art
(B) Rashtrakuta art
(C) Maurya art
(D) More than one of the above
(E) None of the above

45. In which of the following battles are the main opponents *not* correctly stated?
- (A) First Battle of Panipat—Babur and Ibrahim Lodi
(B) Second Battle of Panipat—Tipu Sultan and Marathas
(C) Battle of Haldighati—Maharana Pratap and Akbar
(D) More than one of the above
(E) None of the above
46. During the Delhi Sultanate, the designation 'Muqaddam or Chaudhari' was used for
- (A) revenue officials
(B) village accountant
(C) village headman
(D) More than one of the above
(E) None of the above
47. *Tabaqat-i-Akbari*, which has been sometimes considered more reliable than Abul Fazl's *Akbarnama*, was written by
- (A) Nizamuddin Ahmad
(B) Abdul Hamid Lahori
(C) Gulbadan Begum
(D) More than one of the above
(E) None of the above
48. Who among the following famous rulers founded a suburban township of Nagalapuram, near Vijayanagara, after his mother's name?
- (A) Harihara
(B) Bukka
(C) Krishnadevaraya
(D) More than one of the above
(E) None of the above

41. प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था?
- (A) तक्षशिला
(B) चोल
(C) अनर्त
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
42. भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ?
- (A) प्रायः 12000 वर्ष पूर्व
(B) प्रायः 6000 वर्ष पूर्व
(C) प्रायः 9000 वर्ष पूर्व
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
43. दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार, सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय, की मरम्मत किसने की थी?
- (A) कनिष्क
(B) रुद्रदमन
(C) हर्ष
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
44. झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्त्वपूर्ण अवशेष हैं?
- (A) गुप्त कला
(B) राष्ट्रकूट कला
(C) मौर्य कला
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

45. निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है?
- (A) पानीपत का प्रथम युद्ध—बाबर और इब्राहिम लोदी
(B) पानीपत का द्वितीय युद्ध—टिपू सुल्तान और मराठा
(C) हल्दीघाटी का युद्ध—महाराणा प्रताप और अकबर
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
46. दिल्ली सल्तनत के दौरान 'मुकद्दम या चौधरी' पद का इस्तेमाल किन्के लिए किया जाता था?
- (A) राजस्व अधिकारी
(B) गाँव के लेखाकार
(C) गाँव के सरपंच
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
47. *तबक़ात-ए-अकबरी*, जिसे कभी-कभी अबुल फज़ल के *अकबरनामा* से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था?
- (A) निज़ामुद्दीन अहमद
(B) अब्दुल हमिद लाहौरी
(C) गुलबदन बेगम
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
48. इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी?
- (A) हरिहर
(B) बुक्का
(C) कृष्णदेवराय
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. In 1940, Patna Women's College was founded by which of the following societies?

- (A) Society of Jesus
- (B) Irish Christian Brothers
- (C) Sisters of the Apostolic Carmel
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

50. Who among the following headed the two Boundary Commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1947?

- (A) A. P. Moon
- (B) A. V. Alexander
- (C) Cyril Radcliffe
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

51. Who introduced the system of Mahalwari Settlement in Bengal?

- (A) Lord Cornwallis
- (B) Holt Mackenzie
- (C) Lord Hastings
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

52. In 1940, Vinoba Bhave started individual Satyagraha from

- (A) Nadiad in Kheda district, Gujarat
- (B) Pavnar, Maharashtra
- (C) Punnapra-Vayalar, Kerala
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

53. The Congress took a critical stand over the Montford Reforms in 1918, which led to break up with the old moderate remnants (Sapru, Jayakar and Chintamani) who formed the

- (A) Servants of India Society
- (B) Swaraj Party
- (C) Indian National Liberal Federation
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

54. The Cabinet Mission was sent to India for which of the following?

1. To establish a national government
2. To work out a constitutional arrangement for the transfer of power
3. To work out the details of Jinnah's demand for Pakistan

- (A) 1 only
- (B) 2 only
- (C) 3 only
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

49. 1940 में, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी?

- (A) सोसायटी ऑफ़ ज़िसस
- (B) आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स
- (C) सिस्टर्स ऑफ़ द एपोस्टोलिक कार्मेल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था?

- (A) ए० पी० मून
- (B) ए० वी० अलेक्जेंडर
- (C) सिरिल रेडक्लिफ़
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

51. किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की?

- (A) लॉर्ड कॉर्नवालिस
- (B) होल्ड मैकेंजी
- (C) लॉर्ड हेस्टिंग्स
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

52. 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया?

- (A) खेड़ा जिले में नडियाद, गुजरात
- (B) पवनार, महाराष्ट्र
- (C) पुन्नपरा-वायलार, केरल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

53. 1918 में मॉटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष (सपू, जयकर और चिंतामणि) टूट गए, जिन्होंने गठन किया

- (A) भारत सेवक समाज का
- (B) स्वराज पार्टी का
- (C) इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

54. कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था?

1. एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए
 2. सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए
 3. पाकिस्तान के लिए जिन्ना की माँग के व्यौरों पर काम करने के लिए
- (A) केवल 1
 - (B) केवल 2
 - (C) केवल 3
 - (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 - (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. In 1940, Patna Women's College was founded by which of the following societies?

- (A) Society of Jesus
- (B) Irish Christian Brothers
- (C) Sisters of the Apostolic Carmel
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

50. Who among the following headed the two Boundary Commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1947?

- (A) A. P. Moon
- (B) A. V. Alexander
- (C) Cyril Radcliffe
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

51. Who introduced the system of Mahalwari Settlement in Bengal?

- (A) Lord Cornwallis
- (B) Holt Mackenzie
- (C) Lord Hastings
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

52. In 1940, Vinoba Bhave started individual Satyagraha from

- (A) Nadiad in Kheda district, Gujarat
- (B) Pavnar, Maharashtra
- (C) Punnappa-Vayalar, Kerala
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

53. The Congress took a critical stand over the Montford Reforms in 1918, which led to break up with the old moderate remnants (Sapru, Jayakar and Chintamani) who formed the

- (A) Servants of India Society
- (B) Swaraj Party
- (C) Indian National Liberal Federation
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

54. The Cabinet Mission was sent to India for which of the following?

1. To establish a national government
2. To work out a constitutional arrangement for the transfer of power
3. To work out the details of Jinnah's demand for Pakistan

- (A) 1 only
- (B) 2 only
- (C) 3 only
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

49. 1940 में, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी?

- (A) सोसायटी ऑफ जेसुस
- (B) आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स
- (C) सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था?

- (A) ए० पी० मून
- (B) ए० वी० अलेक्जेंडर
- (C) सिरिल रेडक्लिफ
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

51. किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की?

- (A) लॉर्ड कॉर्नवालिस
- (B) होल्ट मैकेंजी
- (C) लॉर्ड हेस्टिंग्स
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

52. 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया?

- (A) खेड़ा जिले में नडियाद, गुजरात
- (B) पवनार, महाराष्ट्र
- (C) पुन्नपरा-वायलार, केरल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

53. 1918 में मॉटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष (सप्रू, जयकर और चिंतामणि) टूट गए, जिन्होंने गठन किया

- (A) भारत सेवक समाज का
- (B) स्वराज पार्टी का
- (C) इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

54. कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था?

1. एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए
 2. सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए
 3. पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए
- (A) केवल 1
 - (B) केवल 2
 - (C) केवल 3
 - (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 - (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

55. Who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal?

- (A) Sher Khan
- (B) Bairam Khan
- (C) Bahadur Shah
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

56. The Vikramshila University was established by

- (A) Dharmapala
- (B) Devapala
- (C) Gopala
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

57. Who among the following was the first Governor of Bihar?

- (A) Sir James David Sifton
- (B) Sir Hugh Dow
- (C) Sir Maurice Garnier Hallett
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

02/FH/CC/PT-2023/144-A

18

[Contd.]

58. Who was the author of *Mohatma Gandhi and Bihar: Some Reminiscences*?

- (A) J. P. Narayan
- (B) Karpoori Thakur
- (C) Dr. Rajendra Prasad
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

59. Which is the oldest church in Bihar?

- (A) Luke's Church
- (B) Stephen's Church
- (C) Padri Ki Haveli
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

60. The late actor Kumudlal Ganguly, also known by his stage name Ashok Kumar, was born in which of the following cities of Bihar?

- (A) Munger
- (B) Bhagalpur
- (C) Patna
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

02/FH/CC/PT-2023/144-A

18

[Contd.]

55. इनमें से किसने हुमायूँ को बर मुस्ताक दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक प्रदान करि अर्पित करेगा?

- (A) शेर खान
- (B) बैरम खान
- (C) बहादुर शाह
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

56. विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था?

- (A) धर्मपाल
- (B) देवपाल
- (C) गोपाल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

57. इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे?

- (A) सर जेम्स डेविड सिफ्टन
- (B) सर ह्यू डो
- (C) सर मौरिस गार्नियर हलैट
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

02/FH/CC/PT-2023/144A

19

[Contd.]

58. महात्मा गांधी लैट बिहार, सय रेमिनिस्सेस के लेखक कौन थे?

- (A) जे. पी. नायडू
- (B) कर्पोरी थकुर
- (C) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

59. बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन-सा है?

- (A) लूक चर्च
- (B) स्टीफन चर्च
- (C) पादरी की हवेली
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

60. दिवांत अभिनेता कुमुदलाल गंगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था?

- (A) मुंगेर
- (B) भागलपुर
- (C) पटना
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

61. Which of the following Union Ministries recently launched the YUVA 2.0 Scheme in 2022?

- (A) Health and Family Welfare Ministry
(B) Education Ministry
(C) AYUSH Mantralay
(D) More than one of the above
(E) None of the above

62. The Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India (MTSI) in November 2022 with field videography of the country's how many languages?

- (A) 40
(B) 233
(C) 576
(D) More than one of the above
(E) None of the above

63. Which of the following committees submitted a report on gas pricing recommending complete pricing freedom from January 1, 2026?

- (A) Arun Goel Committee
(B) Kirit Parikh Committee
(C) P. K. Mohanty Committee
(D) More than one of the above
(E) None of the above

64. Which of the following cities was *not* conferred with five-star garbage-free city rank according to Swachh Survekshan, 2022?

- (A) Surat
(B) Bhopal
(C) Navi Mumbai
(D) More than one of the above
(E) None of the above

65. The Prime Minister inaugurated the first greenfield airport 'Donyi Polo Airport' in which of the following locations?

- (A) Dholka
(B) Itanagar
(C) Dibrugarh
(D) More than one of the above
(E) None of the above

66. Which animal has been approved as a food animal by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in November 2022?

- (A) Himalayan yak
(B) Mountain goat
(C) Himalayan tahr
(D) More than one of the above
(E) None of the above

67. India's first floating financial literacy camp was organized recently by India Post Payments Bank in which of the following locations?

- (A) Srinagar
(B) Andaman Islands
(C) Kerala
(D) More than one of the above
(E) None of the above

61. निम्नलिखित में से किस केन्द्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया?

- (A) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(B) शिक्षा मंत्रालय
(C) आयुष मंत्रालय
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

62. गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (एम० टी० एस० आइ०) कार्य को पूरा किया है?

- (A) 40
(B) 233
(C) 576
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

63. निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी, 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है?

- (A) अरुण गोयल समिति
(B) किरीट पारिख समिति
(C) पी० के० मोहंती समिति
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

64. निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 के अनुसार पाँच सितारा कचरा-मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था?

- (A) सूरत
(B) भोपाल
(C) नवी मुंबई
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

65. प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 'डोनी पोलो हवाई अड्डे' का उद्घाटन किया?

- (A) डोलका
(B) इटानगर
(C) डिब्रुगढ़
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ० एस० ए० आइ०) द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है?

- (A) हिमालयी याक
(B) माउंटेन बकरी
(C) हिमालयी तहर
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

67. भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था?

- (A) श्रीनगर
(B) अंडमान द्वीप समूह
(C) केरल
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

68. The President of India inaugurated 'PARAM KAMRUPA' Supercomputer facility at which of the following IITs?

- (A) Kharagpur
- (B) Bombay
- (C) Guwahati
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

69. In the 90th Indian Air Force Day, celebrated on 8th October, 2022, an hour-long air display of eighty aircrafts was carried out over which of the following locations?

- (A) Gateway of India, Mumbai
- (B) Dal Lake, Jammu and Kashmir
- (C) Sukhna Lake, Chandigarh
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

70. Which month of the year is celebrated as Rashtriya Poshan Maah or National Nutrition Month under the Poshan Abhiyaan of the Government of India?

- (A) May
- (B) September
- (C) July
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

71. What is the name of recently launched final module of China's Tiangong Space Station?

- (A) Tianhe
- (B) Wentian
- (C) Mengtian
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

72. Which of the following is the world's largest volcano erupted for the first time in 38 years?

- (A) Mount St. Helens
- (B) Mauna Loa
- (C) Haleakala
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

73. Who among the following recently received the 2022 Booker Prize for his novel, *The Seven Moons of Maali Almeida*?

- (A) Michael Ondaatje
- (B) Pradeep Mathew
- (C) Shehan Karunatilaka
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

74. What was the theme of the World Space Week, 2022?

- (A) Women in Space
- (B) Satellites Improve Life
- (C) Space and Sustainability
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

68. भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आई० आई० टी० में 'परम कामरूप' सुपरकंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया?

- (A) खड़गपुर
- (B) बंबई
- (C) गुवाहाटी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

69. 8 अक्टूबर, 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर अस्सी वायुयानों के घंटेभर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था?

- (A) गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई
- (B) डल झील, जम्मू और कश्मीर
- (C) सुखना झील, चंडीगढ़
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

70. भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नैशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है?

- (A) मई
- (B) सितंबर
- (C) जुलाई
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

71. चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है?

- (A) तियान्हे
- (B) वेंटियन
- (C) मेंगटियन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

72. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था?

- (A) माउंट सेंट हेलेंस
- (B) मौना लोआ
- (C) हलेअकाला
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

73. इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास, *द सेवन मूनस ऑफ माली अल्मेडा* के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला?

- (A) माइकल ओन्डाटजे
- (B) प्रदीप मैथ्यू
- (C) शेहान करुणातिलक
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

74. विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 2022 की थीम क्या थी?

- (A) अंतरिक्ष में औरतें
- (B) उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं
- (C) अंतरिक्ष और निरंतरता
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

75. Which of the following laboratories claimed a historic nuclear fusion breakthrough in December 2022?

- (A) Lawrence Livermore National Laboratory
(B) Oak Ridge National Laboratory
(C) Los Alamos National Laboratory
(D) More than one of the above
(E) None of the above

76. Which of the following is Collins Dictionary's word of the year 2022?

- (A) Permacrisis
(B) Carolean
(C) Lawfare
(D) More than one of the above
(E) None of the above

77. Which of the following countries, along with Senegal, launched the International Drought Resilience Alliance during COP27?

- (A) Italy
(B) Germany
(C) Spain
(D) More than one of the above
(E) None of the above

78. The Embassy of which country applied for a GI Tag for 'Nihonshu' for the first time in India?

- (A) China
(B) Japan
(C) South Korea
(D) More than one of the above
(E) None of the above

79. Which of the following space agencies announced that it had successfully used steam to propel its EQUULEUS spacecraft?

- (A) NASA
(B) SUPARCO
(C) JAXA
(D) More than one of the above
(E) None of the above

80. What is the name of Tesla humanoid robot launched in October 2022?

- (A) Optimus
(B) Atlas
(C) Pepper
(D) More than one of the above
(E) None of the above

75. निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था?

- (A) लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी
(B) ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी
(C) लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

76. कोलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द इयर 2022 निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- (A) Permacrisis
(B) Carolean
(C) Lawfare
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

77. निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया?

- (A) इटली
(B) जर्मनी
(C) स्पेन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

78. भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने 'निहोन्शु' के लिए जी० आई० टैग के लिए आवेदन किया था?

- (A) चीन
(B) जापान
(C) दक्षिण कोरिया
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

79. निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है?

- (A) नासा (NASA)
(B) सुपारको (SUPARCO)
(C) जाक्सा (JAXA)
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

80. अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है?

- (A) ऑप्टिमस
(B) ऐटलस
(C) पेपर
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

75. Which of the following laboratories claimed a historic nuclear fusion breakthrough in December 2022?

- (A) Lawrence Livermore National Laboratory
- (B) Oak Ridge National Laboratory
- (C) Los Alamos National Laboratory
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

76. Which of the following is Collins Dictionary's word of the year 2022?

- (A) Permacrisis
- (B) Carolean
- (C) Lawfare
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

77. Which of the following countries, along with Senegal, launched the International Drought Resilience Alliance during COP27?

- (A) Italy
- (B) Germany
- (C) Spain
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

78. The Embassy of which country applied for a GI Tag for 'Nihonshu' for the first time in India?

- (A) China
- (B) Japan
- (C) South Korea
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

79. Which of the following space agencies announced that it had successfully used steam to propel its EQUULEUS spacecraft?

- (A) NASA
- (B) SUPARCO
- (C) JAXA
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

80. What is the name of Tesla humanoid robot launched in October 2022?

- (A) Optimus
- (B) Atlas
- (C) Pepper
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

75. निम्नलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था?

- (A) लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी
- (B) ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी
- (C) लॉस अलामोस नेशनल लैबोरेटरी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

76. कोलिनस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द इयर 2022 निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- (A) Permacrisis
- (B) Carolean
- (C) Lawfare
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

77. निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया?

- (A) इटली
- (B) जर्मनी
- (C) स्पेन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

78. भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने 'निहोन्शु' के लिए जी० आइ० टैग के लिए आवेदन किया था?

- (A) चीन
- (B) जापान
- (C) दक्षिण कोरिया
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

79. निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है?

- (A) नासा (NASA)
- (B) सुपारको (SUPARCO)
- (C) जाक्सा (JAXA)
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

80. अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है?

- (A) ऑप्टिमस
- (B) ऐटलस
- (C) पेपर
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

81. The first 'floating solar power plant' has been built at which place in Bihar?

- (A) Dilbarpur, Darbhanga
- (B) Jamalpur, Darbhanga
- (C) Kadirabad, Darbhanga
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

82. According to the Economic Survey for the year 2019-2020, which district has lowest per capita income?

- (A) Sheohar
- (B) Araria
- (C) Sitamarhi
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

83. According to the NITI Aayog SDG Report for the year 2020-2021, how much did the State of Bihar score?

- (A) 22 out of 100
- (B) 35 out of 100
- (C) 52 out of 100
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

84. Which sport has been included in the Khelo India Women's Tournament for the first time?

- (A) Cricket
- (B) Track Cycling
- (C) Archery
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

85. Which of the following has been awarded the Geographical Indication (GI) Tag in August 2022?

- (A) Applique (Khatwa) Work of Bihar
- (B) Sikki Grass Products of Bihar
- (C) Mithila Makhana
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

86. Which of the following has been added to the UNESCO World Heritage List in 2022?

- (A) Astronomical Observatory at the Langat Singh College
- (B) Mahabodhi Temple Complex at Bodhi Gaya
- (C) Archaeological Site of Nalanda Mahavihara at Nalanda
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

81. पहला 'तेरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र' बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है?

- (A) दिलबरपुर, दरभंगा
- (B) जमालपुर, दरभंगा
- (C) कदीराबाद, दरभंगा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

82. वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है?

- (A) शिवहर
- (B) अररिया
- (C) सीतामढ़ी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

83. वर्ष 2020-2021 के लिए नीति आयोग एस० डी० जी० रिपोर्ट के अनुसार, बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा?

- (A) 100 में से 22
- (B) 100 में से 35
- (C) 100 में से 52
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

84. खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है?

- (A) क्रिकेट
- (B) ट्रैक सायकलिंग
- (C) तीरंदाजी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

85. निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक (जी० आइ०) टैग से सम्मानित किया गया है?

- (A) बिहार का एप्लिक (खतवा) वर्क
- (B) बिहार के सिक्की घास उत्पाद
- (C) मिथिला मखाना
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

86. निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है?

- (A) लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला
- (B) बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर
- (C) नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

87. In the year 2020, Bihar gained the _____ rank out of 36 States in the Ease of Doing Business, awarded by Business Reforms Action Plan (BRAP).

- (A) 23rd
(B) 24th
(C) 25th
(D) More than one of the above
(E) None of the above

88. Ganga Jal Aapurti Yojana was inaugurated by Chief Minister Nitish Kumar on November 28, 2022 at which place?

- (A) Lakhisarai
(B) Rajgir
(C) Bodh Gaya
(D) More than one of the above
(E) None of the above

89. Which of the following associations/boards declared equal pay for men and women players in October 2022?

- (A) Bihar Cricket Association
(B) Board of Control for Cricket in India
(C) Gujarat Cricket Association
(D) More than one of the above
(E) None of the above

90. The urbanization of the State has increased very rapidly in the last ten years. According to the 2011 Census, the level of urbanization in Bihar was just _____ percent, which has increased to _____ percent at present.

- (A) 11-3, 15-3
(B) 12-2, 13-1
(C) 14-4, 15-5
(D) More than one of the above
(E) None of the above

91. In the end of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan?

- (A) Amu Darya
(B) Kabul River
(C) Helmand River
(D) More than one of the above
(E) None of the above

92. Which one of the following is the well-publicised wildlife campaign in the world launched in 1973?

- (A) Project Tiger
(B) Lion Project
(C) Sunderbans Project
(D) More than one of the above
(E) None of the above

93. Which of the following statements is true about troposphere?

- (A) It is the topmost layer of the atmosphere.
(B) The temperature at this layer increases with the height.
(C) Its average height is 13 km.
(D) More than one of the above
(E) None of the above

94. The southern continent broken from Pangaea is called

- (A) Laurasia
(B) Gondwanaland
(C) Pacific Ocean
(D) More than one of the above
(E) None of the above

95. The Arctic region and the Antarctica continent are situated near

- (A) the Sahara Desert
(B) the North and South Poles
(C) the Amazon Basin
(D) More than one of the above
(E) None of the above

87. बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी० आर० ए० पी०) द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में _____ रैंक हासिल की।

- (A) 23वीं
(B) 24वीं
(C) 25वीं
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

88. 28 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था?

- (A) लखीसराय
(B) राजगीर
(C) बोधगया
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

89. निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन/बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की?

- (A) बिहार क्रिकेट एसोसिएशन
(B) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
(C) गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

90. पिछले दस वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर _____ प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में _____ प्रतिशत हुआ है।

- (A) 11-3, 15-3
(B) 12-2, 13-1
(C) 14-4, 15-5
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

91. अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है?

- (A) अमु दरिया
(B) काबुल नदी
(C) हेल्मंद नदी
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

92. निम्नलिखित में से कौन-सा विरव में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था?

- (A) प्रोजेक्ट टाइगर
(B) लायन प्रोजेक्ट
(C) सुंदरवन परियोजना
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

93. क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (A) यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है।
(B) इस परत का तापमान ऊँचाई के साथ बढ़ता है।
(C) इसकी औसत ऊँचाई 13 कि० मी० है।
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

94. पैजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं?

- (A) लोरेशिया
(B) गोंडवानालैंड
(C) प्रशांत महासागर
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

95. आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं?

- (A) सहारा रेगिस्तान
(B) उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव
(C) अमेज़न बेसिन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

96. Which States of India have common border with Myanmar?

- (A) Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram
(B) Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram
(C) Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura
(D) More than one of the above
(E) None of the above

97. Which one of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the nearshore environment, seagrasses, coral reefs, salt marshes and mangroves?

- (A) Gulf of Mannar Biosphere Reserve
(B) Nanda Devi Biosphere Reserve
(C) Sunderbans Biosphere Reserve
(D) More than one of the above
(E) None of the above

98. In which type of climatic region do Uttar Pradesh and Bihar fall as per Köppen's classification scheme?

- (A) Cwg
(B) Aw
(C) Dfc
(D) More than one of the above
(E) None of the above

99. India's territorial limit extends towards the sea up to how many nautical miles/km from the coast?

- (A) 16 nautical miles (about 25.9 km)
(B) 12 nautical miles (about 21.9 km)
(C) 10 nautical miles (about 19.9 km)
(D) More than one of the above
(E) None of the above

100. Which of the following river valleys is rich in coal reserves in India?

- (A) Damodar River Valley
(B) Son River Valley
(C) Mahanadi River Valley
(D) More than one of the above
(E) None of the above

101. Which of the following statements is true about sugar industry in India?

- (A) It is a weight-losing industry.
(B) Maharashtra has emerged as a leading sugar producer in the country.
(C) Uttar Pradesh is the second largest producer of sugar.
(D) More than one of the above
(E) None of the above

102. Towards the end of summer, there are pre-monsoon showers which are a common phenomenon in Kerala and coastal areas of Karnataka. Locally, they are known as

- (A) Blossom showers
(B) Norwesters
(C) Mango showers
(D) More than one of the above
(E) None of the above

103. The atmosphere is mainly heated by the

- (A) short-wave solar radiation
(B) reflected solar radiation
(C) long-wave terrestrial radiation
(D) More than one of the above
(E) None of the above

96. प्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएँ मिलती हैं?

- (A) अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम
(B) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम
(C) मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

97. निम्नलिखित में से कौन-सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं?

- (A) मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व
(B) नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व
(C) सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

98. कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं?

- (A) Cwg
(B) Aw
(C) Dfc
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

99. भारत की क्षेत्रीय सीमा, तट से कितने समुद्री मील/कि० मी० तक समुद्र की ओर फैली हुई है?

- (A) 16 समुद्री मील (लगभग 25.9 कि० मी०)
(B) 12 समुद्री मील (लगभग 21.9 कि० मी०)
(C) 10 समुद्री मील (लगभग 19.9 कि० मी०)
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

100. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सी नदी घाटी कोयले के भण्डारों से समृद्ध है?

- (A) दामोदर नदी घाटी
(B) सोन नदी घाटी
(C) महानदी नदी घाटी
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

101. भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) यह वजन कम करने वाला उद्योग है।
(B) महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है।
(C) उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

102. ग्रीष्म के अंत में पूर्व-मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है?

- (A) ब्लॉसम शावर्स
(B) नॉरवेस्टर्स
(C) मँगो शावर्स
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

103. वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है?

- (A) लघु-तरंग सौर विकिरण
(B) परावर्तित सौर विकिरण
(C) दीर्घ-तरंग स्थलीय विकिरण
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

104. Which of the following States of India borders with the maximum number of districts in Bihar?

- (A) Uttar Pradesh
- (B) Jharkhand
- (C) West Bengal
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

105. Which of the following is the last railway station of Bihar in the train route from Bhagalpur towards Mirza Cheuki?

- (A) Pirpainti Railway Station
- (B) Ammapali Railway Station
- (C) Kahalgaon Railway Station
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

106. With reference to the mineral production in Bihar, consider the following statements :

1. Rohtas has the highest deposit of pyrites.
2. Limestone is found in Kaimur (Bhabhua), Munger (Monghyr) and Rohtas districts.
3. Gold deposits are found in Jamui district.

Which of the statements given above is/are correct?

- (A) 3 only
- (B) 1 and 2 only
- (C) 1 and 3 only
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

107. Phalgu, a sacred river flowing in Bihar, is formed by the confluence of which of the following rivers?

- (A) Lilajan and Son rivers
- (B) Son and Mohana rivers
- (C) Mohana and Lilajan rivers
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

108. In Bihar, tea gardens were established for the first time in which of the following places?

- (A) Thakurganj
- (B) Bahadurganj
- (C) Supaul
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

109. Choose the correct order of the following districts of Bihar as per the ascending decadal population growth (2001–2011).

- (A) Siwan < Kishanganj < Madhepura
- (B) Madhepura < Kishanganj < Siwan
- (C) Kishanganj < Madhepura < Siwan
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

110. Which food industry dominates among the agro-based industries in Bihar?

- (A) Cereal-based industry
- (B) Pulses industry
- (C) Sugarcane industry
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

104. भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है?

- (A) उत्तर प्रदेश
- (B) झारखंड
- (C) पश्चिम बंगाल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

105. निम्नलिखित में से कौन-सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है?

- (A) पीपंती रेलवे स्टेशन
- (B) अम्मापाली रेलवे स्टेशन
- (C) कहलगाँव रेलवे स्टेशन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

106. बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है।
2. चूना-पत्थर कैमूर (भभुआ), मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है।
3. जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 3
- (B) केवल 1 और 2
- (C) केवल 1 और 3
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

107. बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गू निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है?

- (A) लीलाजन और सोन नदी
- (B) सोन और मोहाना नदी
- (C) मोहाना और लीलाजन नदी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

108. बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई?

- (A) ठाकुरगंज
- (B) बहादुरगंज
- (C) सुपौल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

109. बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि (2001–2011) के अनुसार सही क्रम चुनिए।

- (A) सीवान < किशनगंज < मधेपुरा
- (B) मधेपुरा < किशनगंज < सीवान
- (C) किशनगंज < मधेपुरा < सीवान
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

110. बिहार में कृषि-आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है?

- (A) अनाज-आधारित उद्योग
- (B) दाल उद्योग
- (C) गन्ना उद्योग
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

111. Large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 cm to catch the image of a white horse. The image will be

- (A) a zebra of black stripes
- (B) a horse of black stripes
- (C) a horse of less brightness
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

112. Shrillness of sound is determined by

- (A) amplitude of sound
- (B) wavelength of sound
- (C) velocity of sound
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

113. Which of the following photoelectric devices is most suitable for digital applications?

- (A) Photovoltaic cell
- (B) Photoemitter
- (C) Photodiode
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

114. Ball bearings are used to convert static friction into

- (A) drag
- (B) sliding friction
- (C) rolling friction
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

115. A goalkeeper in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to

- (A) exert large force on the ball
- (B) increase the force exerted by the ball on hands
- (C) decrease the rate of change of momentum
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

116. Which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element?

- (A) Beta ray
- (B) Alpha ray
- (C) Cathode ray
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

117. Centripetal force is responsible to

- (A) keep the body moving along the circular path
- (B) fly the object along a straight line
- (C) independent motion of the object in space
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

111. 20 से० मी० फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद धोड़े का प्रतिबिम्ब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। यह प्रतिबिम्ब कैसा होगा?

- (A) काली पट्टियों का एक ज़ेबरा
- (B) काली पट्टियों का एक घोड़ा
- (C) कम चमक वाला एक घोड़ा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

112. ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

- (A) ध्वनि का आयाम
- (B) ध्वनि का तरंगदैर्घ्य
- (C) ध्वनि का वेग
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

113. निम्नलिखित में से कौन-सा फोटो-इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है?

- (A) फोटो-वोल्टिक सेल
- (B) फोटो-उत्सर्जक
- (C) फोटो-डायोड
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

114. बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है?

- (A) कर्षण (ड्रैग)
- (B) सर्पी घर्षण
- (C) रोलिंग घर्षण
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

115. फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है?

- (A) फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में
- (B) फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में
- (C) संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

116. निम्नलिखित में से कौन-सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है?

- (A) बीटा किरण
- (B) अल्फा किरण
- (C) कैथोड किरण
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

117. केन्द्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है?

- (A) वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना
- (B) वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना
- (C) अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

115. फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में फेंकने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है?
- (A) फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में
 (B) फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में
 (C) संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
116. निम्नलिखित में से कौन-सा एक रेडियोधर्मी तत्व है?
- (A) सीसा
 (B) अयस्क
 (C) कैथोड रजत
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
117. के-आयसोटोपों को किसके लिए निर्माता है?
- (A) बसु को गुनाकार पथ पर गतिमान रखना
 (B) बसु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना
 (C) अंतरिक्ष में बसु को स्थिर गति
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

111. 20 से 40 फीट दूरी के एक उबल लेस की सतह पर संकेत चार्ज का प्रतिबिम्ब बनाने के लिए बड़ी संख्या में कौन-से चीजें प्रयोग की जाती हैं।
- (A) काली पट्टियाँ का एक खंड
 (B) काली पट्टियों का एक खंड
 (C) कम चमक वाला एक खंड
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
112. ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
- (A) ध्वनि का आयाम
 (B) ध्वनि का तरंगदैर्घ्य
 (C) ध्वनि की गति
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
113. निम्नलिखित में से कौन-सा फोटो-इलेक्ट्रिक उपकरण है?
- (A) फोटो-वोल्टिक सेल
 (B) फोटो-उत्सर्जक
 (C) फोटो-इंजिन
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
114. नीचे बताए गए उष्ण स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है?
- (A) कर्षण (ड्रैग)
 (B) सीधा घर्षण
 (C) गतिमान घर्षण
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

115. A goalkeeper in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball short of the goal. This enables the goalkeeper to
- (A) exert large force on the ball
 (B) increase the force exerted by the ball
 (C) decrease the rate of change of momentum
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
116. Which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element?
- (A) Beta ray
 (B) Alpha ray
 (C) Cathode ray
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
117. Centripetal force is responsible to
- (A) keep the body moving along the circular path
 (B) fly the object along a straight line
 (C) independent motion of the object in space
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
118. Large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 cm to catch the image of a white horse. The image will be
- (A) a zebra of black stripes
 (B) a horse of black stripes
 (C) a horse of less brightness
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
119. Shaltness of sound is determined by
- (A) amplitude of sound
 (B) wavelength of sound
 (C) velocity of sound
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
120. Which of the following photoelectric devices is most suitable for digital applications?
- (A) Photovoltaic cell
 (B) Photoemitter
 (C) Photodiode
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
121. Ball bearings are used to convert sliding friction into
- (A) drag
 (B) sliding friction
 (C) rolling friction
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above

118. Which of the following energy changes involves frictional force?

- (A) Potential energy to sound energy
- (B) Chemical energy to heat energy
- (C) Kinetic energy to heat energy
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

119. A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly. The passengers sitting in the bus will

- (A) fall in the forward direction
- (B) bent towards left side
- (C) bent towards right side
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

120. Before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he/she is adjusting

- (A) amplitude of sound
- (B) intensity of sound
- (C) frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

121. A form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume. An example of this form of matter is

- (A) krypton
- (B) kerosene
- (C) carbon steel
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

122. Some metal oxides react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxides. The examples of amphoteric oxides are

- (A) Al_2O_3 and ZnO
- (B) Al_2O_3 and CuO
- (C) CuO and ZnO
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

123. Which gas contributes to global warming through its greenhouse effect?

- (A) Nitrous oxide
- (B) Methane
- (C) Carbon dioxide
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

118. निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है?

- (A) स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा
- (B) रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा
- (C) गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

119. एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री

- (A) आगे की ओर गिरेंगे
- (B) बाईं ओर झुकेंगे
- (C) दाईं ओर झुकेंगे
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

120. एक संगीत कार्यक्रम में अर्किस्ट्रा बजाने से पहले, एक सितार-वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बाँधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है?

- (A) ध्वनि का आयाम
- (B) ध्वनि की तीव्रता
- (C) अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

121. पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है

- (A) क्रिप्टन
- (B) मिट्टी का तेल
- (C) कार्बन स्टील
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

122. कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं

- (A) Al_2O_3 और ZnO
- (B) Al_2O_3 और CuO
- (C) CuO और ZnO
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

123. कौन-सी गैस अपने ग्रीनहाउस प्रभाव से ग्लोबल वॉर्मिंग में योगदान करती है?

- (A) नाइट्रस ऑक्साइड
- (B) मीथेन
- (C) कार्बन डाइऑक्साइड
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

124. Acids react with metal carbonates to liberate _____ gas.

- (A) CO_2
- (B) CO
- (C) H_2
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

125. Which acid is described as HOOCCOOH ?

- (A) Oxalic acid
- (B) Acetic acid
- (C) Carbonic acid
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

126. You have been provided with three test tubes. One of them contains distilled water and the other two contain an acidic solution and a basic solution, respectively. Which of them will turn red litmus to blue?

- (A) Acid
- (B) Base
- (C) Distilled water
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

127. The odour of acetic acid resembles that of

- (A) tomato
- (B) kerosene
- (C) vinegar
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

128. Why does dry HCl gas *not* change the colour of dry litmus paper?

- (A) Blue litmus becomes dry in the presence of dry HCl gas.
- (B) No H_3O^+ ions are present. Litmus changes colour only in the presence of H_3O^+ ions.

(C) HCl gas acts as a dehydrating agent.

(D) More than one of the above

(E) None of the above

129. Detect the odd one.

- (A) Setting of cement
- (B) Burning of coal
- (C) Ripening of fruit
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

130. Which of the following statements about diamond and graphite is true?

- (A) They have same crystal structure.
- (B) They have same degree of hardness.
- (C) They have same electrical conductivity.
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

124. अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर _____ गैस मुक्त करते हैं।

- (A) CO_2
- (B) CO
- (C) H_2
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

*Not a case
 $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$*

125. HOOCCOOH को कौन-सा अम्ल कहा जाता है?

- (A) ऑक्सैलिक अम्ल
- (B) ऐसीटिक अम्ल
- (C) कार्बोनिक अम्ल.
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

अम्ल

126. आपको तीन परखनलियाँ दी गई हैं। उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा?

- (A) अम्ल
- (B) क्षार
- (C) आसुत जल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

जल

127. ऐसीटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है?

- (A) टमाटर
- (B) मिट्टी का तेल
- (C) सिरका
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

128. शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती?

- (A) सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है।
- (B) कोई H_3O^+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H_3O^+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है।

(C) HCl गैस निरजलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है।

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

129. विषम का पता लगाइए।

- (A) सीमेंट की सेटिंग
- (B) कोयले का जलना.
- (C) फल का पकना
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

130. हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (A) उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है।
- (B) उनके पास समान डिग्री की कठोरता है।
- (C) उनकी विद्युत् चालकता समान होती है।
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

131. The stomata open or close due to change in the

- (A) protein composition of cells
(B) amount of water in cells
(C) position of nucleus in cells
(D) More than one of the above
(E) None of the above

132. Chlorophyll absorbs _____ wavelengths of the sunlight.

- (A) green and blue
(B) green and red
(C) red and blue
(D) More than one of the above
(E) None of the above

133. Which of the following is *not* a correct match?

- (A) Thick, hard stem with branching near base : Tree
(B) Weak stem which cannot stand upright : Creeper
(C) Petiole : Attaches leaf to stem
(D) More than one of the above
(E) None of the above

134. Water reaches great heights in trees because of suction pull caused by

- (A) absorption
(B) transpiration
(C) evaporation
(D) More than one of the above
(E) None of the above

135. Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self-replication?

- (A) Presence of DNA only
(B) Absence of RNA
(C) Presence of both DNA and RNA
(D) More than one of the above
(E) None of the above

136. The parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent are called as

- (A) carpals
(B) cartilage
(C) vertebrae
(D) More than one of the above
(E) None of the above

137. In lichen, a chlorophyll-containing partner, _____ live together.

- (A) fungus and a bacterium
(B) alga and a virus
(C) alga and a fungus
(D) More than one of the above
(E) None of the above

138. Female Anopheles can be distinguished from female Culex because it sits

- (A) at an angle with substratum
(B) parallel to the surface of substratum
(C) at right angle to the surface of substratum
(D) More than one of the above
(E) None of the above

139. The most important cell type associated with the immunity of the body is

- (A) platelets
(B) lymphocytes
(C) RBCs
(D) More than one of the above
(E) None of the above

140. Which one of the following statements is incorrect about muscles in human body?

- (A) Muscles work in pairs.
(B) Muscles become shorter, stiffer and thicker when contracted.
(C) Muscles can only push the bone.
(D) More than one of the above
(E) None of the above

131. किसमें परिवर्तन के कारण रंग खुलते या बंद होते हैं?

- (A) कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना
(B) कोशिकाओं में पानी की मात्रा
(C) कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

132. क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के _____ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है।

- (A) हरे और नीले
(B) हरे और लाल
(C) लाल और नीले
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

133. निम्नलिखित में से कौन-सा मेल सही नहीं है?

- (A) आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा, कठोर तना : पेड़
(B) कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता : लता
(C) पर्णवृत्त : पत्ती को तने से जोड़ता है -
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

134. सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊँचाई तक पहुँच जाता है, जिसका कारण है

- (A) अवशोषण
(B) वाष्पोत्सर्जन
(C) वाष्पीकरण
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

135. निम्नलिखित में से कौन-सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है, जो उसे स्व-प्रतिकृति के योग्य बनाता है?

- (A) केवल डी० एन० ए० की उपस्थिति
(B) आर० एन० ए० की अनुपस्थिति
(C) डी० एन० ए० और आर० एन० ए० दोनों की उपस्थिति
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

136. कंकाल के वे हिस्से, जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे हैं

- (A) कार्पल्स
(B) कार्टिलेज
(C) वर्टिब्रे
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

137. लाइकेन में, एक क्लोरोफिल-युक्त पार्टनर, _____ एक-साथ रहते हैं।

- (A) कवक और बैक्टीरिया
(B) शैवाल और वायरस
(C) शैवाल और कवक
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

138. मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है

- (A) अधःस्तर के साथ एक कोण पर
(B) अधःस्तर की सतह के समानांतर
(C) अधःस्तर की सतह के समकोण पर
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

139. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है

- (A) प्लेटलेट
(B) लिम्फोसाइट
(C) आर० बी० सी०
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

140. मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

- (A) मांसपेशियाँ जोड़े में काम करती हैं।
(B) सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं।
(C) मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं।
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

141. In a code language, if FASTER is written as 2229212319 and MONK is written as 15161412, then how will GUIDE be written in the same language?

- (A) 212219523
- (B) 222119522
- (C) 192019423
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

142. A rectangle has an area 30 cm^2 and perimeter 26 cm. Its sides (in cm) are

- (A) 5, 6
- (B) 2, 15
- (C) 10, 3
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

143. A shopkeeper offers 10% discount on an item with marked price ₹400. If he charges 10% GST, then the final price of the item is

- (A) ₹400
- (B) ₹396
- (C) ₹380
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

144. Arrange the following words in logical and meaningful order :

- 1. Vice President
- 2. President
- 3. Speaker
- 4. Prime Minister
- 5. Members of the Parliament

- (A) 4, 2, 1, 3, 5
- (B) 2, 1, 4, 3, 5
- (C) 5, 1, 2, 3, 4
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

145. Reshma donates one-fourth of her property to a charity organization and divides the remaining property equally among her three children. The part of property each child gets is

- (A) one-fourth
- (B) two-thirds
- (C) half
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

141. किसी कूट भाषा में यदि FASTER को 2229212319 लिखते हैं और MONK को 15161412 लिखते हैं, तो GUIDE को इस भाषा में कैसे लिखेंगे?

- (A) 212219523
- (B) 222119522
- (C) 192019423
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

142. एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग से. मी. है और परिमाप 26 से. मी. है। इसकी भुजाएँ (से. मी. में) हैं

- (A) 5, 6
- (B) 2, 15
- (C) 10, 3
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

143. एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य ₹400 है। यदि वह 10% जी.एस.टी. लेता है, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है?

- (A) ₹400
- (B) ₹396
- (C) ₹380
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

144. निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए :

- 1. उपराष्ट्रपति
- 2. राष्ट्रपति
- 3. अध्यक्ष
- 4. प्रधानमंत्री
- 5. सांसद

- (A) 4, 2, 1, 3, 5
- (B) 2, 1, 4, 3, 5
- (C) 5, 1, 2, 3, 4
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

145. रेशमा अपनी संपत्ति का एक-चौथाई एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने तीन बच्चों में बराबर बाँटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है

- (A) एक-चौथाई
- (B) दो-तिहाई
- (C) आधा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

146. Which of the following statements is false?

- (A) Every square is a rectangle.
 (B) Every rhombus is a parallelogram.
 (C) Every square is a rhombus.
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above

147. In a family of some persons, B says that R is the daughter of my sister A , who is the only daughter of T . X is the child of T and Z , who is the grandmother of H . K is the mother of M , who is the only sister of H . X is unmarried. If S is the spouse of A , how is K related to S ?

- (A) Sister-in-law
 (B) Wife of brother-in-law
 (C) Brother-in-law
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above

148. How many words, no matter if they are meaningless, can be formed by the letters of the word 'DIARY'?

- (A) 5
 (B) 10
 (C) 24
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above

149. Select the missing number from the given alternatives :

44	49	37
52	?	41
58	35	53

- (A) 56
 (B) 77
 (C) 66
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above

150. Find the missing number in the given series following the same pattern :

15, 20, 32, 62, 118, 248, ?

- (A) 322
 (B) 368
 (C) 428
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above

146. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

- (A) प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है।
 (B) प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतरचतुर्भुज होता है।
 (C) प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है।
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

147. कुछ सदस्यों के एक परिवार में B कहता है कि R मेरी बहन A की पुत्री है, जो T की इकलौती पुत्री है। X , T और Z की संतान है, जो H की दादी/नानी है। K , M की माँ है, जो H की इकलौती बहन है। X अविवाहित है। यदि S , A की जीवनसाथी है, तो K का S से किस प्रकार का संबंध है?

- (A) भाभी/ननद/साती
 (B) बहनोई/देवर/साला की पत्नी
 (C) बहनोई/देवर/साता
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

02/FH/CC/PT-2023/144A

148. शब्द 'DIARY' के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हों या ना हों?

- (A) 5
 (B) 10
 (C) 24
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

149. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए :

8	44	49	37
6	52	?	41
	58	35	53

- (A) 56
 (B) 77
 (C) 66
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

150. दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए :

15, 20, 32, 62, 118, 248, ?

- (A) 322
 (B) 368
 (C) 428

- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

45

141. In a code language, if FASTER is written as 2229212319 and MONK is written as 15161412, then how will GUIDE be written in the same language?

- (A) 212219523
(B) 222119522
(C) 192019423
(D) More than one of the above
(E) None of the above

142. A rectangle has an area 30 cm^2 and perimeter 26 cm. Its sides (in cm) are

- (A) 5, 6
(B) 2, 15
(C) 10, 3
(D) More than one of the above
(E) None of the above

143. A shopkeeper offers 10% discount on an item with marked price ₹400. If he charges 10% GST, then the final price of the item is

- (A) ₹400
(B) ₹396
(C) ₹380
(D) More than one of the above
(E) None of the above

144. Arrange the following words in logical and meaningful order :

1. Vice President
2. President
3. Speaker
4. Prime Minister
5. Members of the Parliament

- (A) 4, 2, 1, 3, 5
(B) 2, 1, 4, 3, 5
(C) 5, 1, 2, 3, 4
(D) More than one of the above
(E) None of the above

145. Reshma donates one-fourth of her property to a charity organization and divides the remaining property equally among her three children. The part of property each child gets is

- (A) one-fourth
(B) two-thirds
(C) half
(D) More than one of the above
(E) None of the above

141. किसी कूट भाषा में यदि FASTER को 2229212319 लिखते हैं और MONK को 15161412 लिखते हैं, तो GUIDE को इस भाषा में कैसे लिखेंगे?

- (A) 212219523
(B) 222119522
(C) 192019423
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

142. एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग से. मी. है और परिमाप 26 से. मी. है। इसकी भुजाएँ (से. मी. में) हैं

- (A) 5, 6
(B) 2, 15
(C) 10, 3
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

143. एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य ₹400 है। यदि वह 10% जी. एस. टी. लेता है, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है?

- (A) ₹400
(B) ₹396
(C) ₹380
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

144. निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए :

1. उपराष्ट्रपति
2. राष्ट्रपति,
3. अध्यक्ष
4. प्रधानमंत्री
5. सांसद

- (A) 4, 2, 1, 3, 5
(B) 2, 1, 4, 3, 5

- (C) 5, 1, 2, 3, 4
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

145. रेशमा अपनी संपत्ति का एक-चौथाई एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने तीन बच्चों में बराबर बाँटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है

- (A) एक-चौथाई
(B) दो-तिहाई
(C) आधा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं